

November 08, 2023

Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai 400051

Listing Compliance Department
BSE Limited
Phirages Legischhov

Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 535958

NSE Symbol: ESSENTIA

Sub: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023

Dear Sir/ Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended September 30, 2023, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated November 8, 2023 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you, Yours Faithfully,

for Integra Essentia Limited

Vishesh Gupta Managing Director DIN: 00255689

FINANCIAL EXPRESS

LERTHAI FINANCE LIMITED (CIN:L65100KA1979PLC061580)

Registered Office: Barton Centre, Office No. 312/313, Mahatma Gandhi Road, Bangalore 560001, India Statement of Audited Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023

Particulars	Quarter ended September 30, 2023 (Unaudited)	Half year ended September 30, 2023 (Unaudited)	Quarter ended September 30, 2022 (Unaudited)
Total income from operations (net)	12.31	26.22	7.04
Profit / (Loss) from Ordinary activities before tax	(3.38)	(5.13)	(8.35)
Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax	(3.38)	(5.13)	(8.35)
Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(3.38)	(5.13)	(8.35)
Equity Share Capital	70.00	70.00	70.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve, as shown in the Balance Sheet of previous year)			6.0
	(as on 30-Sep-23)	(as on 30-Sep-23)	(as on 30-Sep-22)
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) (not annualized):Basic & Diluted	(0.48)	(0.73)	(1.19)
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) (not annualized):Basic & Diluted	(0.48)	(0.73)	(1.19)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and Company's website www.lerthaifinance.com For Lerthai Finance Limited

Place: Bengaluru Date: 07th November 2023 Mr. Shao Xing Max Yang Chairman and Director DIN 08114973

SAKSOFT LIMITED SAKSOFT

Regd & Corp. Office: Global Infocity Park, 2th Floor, Block - A., No 40 Dr MGR Salai, Kandanchavadi, Perungudi, Chennai - 600 096. Phone: +91-44-24543500, CIN: L72200TN1999PLC054429 | Email: investorqueries@saksoft.co.in | website: www.saksoft.com

Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the

				(Rs. in Lakhs
Particulars	Quarter ended 30.09.2023	Six month ended 30.09.2023	Quarter ended 30.09.2022	Six month ended 30.09.2022
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total Income	19,217.59	37,720.75	16,697.05	31,816.83
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	90 200000000000	905035377500	515-3485-556-55	1,50,500=1,5000
Exceptional and/ or Extraordinary Items)	3,389.13	6,677.14	2,584.85	4,882.81
Net Profit/ (Loss) for the period before tax	30 900000000000000	A SOUTH THE PARTY OF THE PARTY		100000000000000000000000000000000000000
(after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	3,389.13	6,677.14	2,584.85	4,882.81
Net Profit/ (Loss) for the period after tax	Acceptance		0.000000000	2004/1000/2004
(after Exceptional and /or Extraordinary Items)	2,527.74	5,043.09	1,932.07	3,712.53
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss)			197757	22.72
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	2,242.35	5,094.30	1,514.54	2,911.60
Equity Share capital	1,006.86	1,006.86	1,056.40	1,056.40
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
(a) Basic (Rs.)	2.51	5.02	1.93	3.71
(b) Diluted (Rs.)	2.30	4.59	1.78	3.42
Notes : 1.Key Standalone financial information				
Turnover	6,090.09	12,100.50	5,452.82	10,240.62
Profit/(Loss) before tax	1,137.64	2,197.26	925.05	1,464.68

- The above is an extract of the detailed format of the Financial results for the guarter ended September 30, 2023 filled with the Stock Exchanges on November 07, 2023 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's Website, www.saksoft.com and on the website of the Stock Exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- 3. The Company at its Board Meeting held on November 07, 2023 has declared an Interim Dividend of Re. 0.40/- per equity share (40%) of the Face Value of Re 1/- share fully paid up.
- 4.Three Sixty Logica Testing Services Private Limited & Saksoft Inc, USA. a wholly owned subsidiary of Saksoft Limited acquired the entire shareholding of Solveda Software India Private Limited. & Solveda LLC effective August 2023 making it a wholly owned subsidiary of Three Sixty Logica Testing Services Private Limited. & Saksoft Inc., USA and a step down subsidiary of Saksoft Limited.
- For and on behalf of the Board of Directors Aditya Krishna

Place: Chennai Date: November 07, 2023

KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

A Kirloskar Group Company

Registered Office: Yamuna, S. No. 98 (3 to 7), Plot No. 3, Baner, Pune - 411 045.

CIN No.: L29113PN1920PLC000670



Enriching Lives

Unaudited Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year ended 30 September 2023

(Rupees in Million)

			Stand	falone	j		Conso	lidated		
Sr. No.	Particulars	Quarte	r Ended	Half Year Ended	Year Ended	Quarter Ended		Half Year Ended	Year Ended	
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2023 Audited	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total income from Operations	6,054	5,989	11,911	25,729	9,154	8,680	18,204	37,575	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	497	325	947	2,212	725	420	1,624	3,223	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	497	281	947	2,073	725	420	1,674	3,181	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	351	205	688	1,526	509	307	1,145	2,358	
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	294	194	621	1,501	417	224	1,042	2,511	
6	Equity Share Capital	159	159	159	159	159	159	159	159	
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per audited balance sheet of previous accounting year	5,000	20000000	1.5860.5	12,358	10.2-00.000	Contractor	1,5000	13,881	
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (from continuing operations) (not annualized)									
	(a) Basic	4.42	2.58	8.66	19.22	6.35	3.87	14.36	29.59	
	(b) Diluted	4.42	2.58	8.66	19.22	6.35	3.87	14.36	29.59	

Notes:

Date: 07 November 2023

Place : Dewas

- 1 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.kirloskarpumps.com.
- 2 Exceptional item represents provision made towards impairment of it's investment in the subsidiary company viz. 'The Kolhapur Steel Limited' in respective period in standalone financials.
- 3 Exceptional items for guarter ended 30 June 2023 and half year ended 30 September 2023 represent net credit on account of reversal of provisions related to projects and sales tax in respect of Company's subsidiary 'Karad Projects and Motors Limited.' in consolidated financials.
- 4 Exceptional item for year ended 31 March 2023, represent amount paid by the Company's subsidiary 'The Kolhapur Steel Limited' (TKSL) to Government of Maharashtra towards change in usage of part of the land owned by it as per collector order dated 19 October 2022 in consolidated financials.
- 5 Figures for earlier periods have been regrouped/reclassified wherever necessary to make them comparable with current period's figure.

For KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

SANJAY KIRLOSKAR CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR DIN: 00007885

 Tel: +91 20 6721 4444 Email: secretarial@kbl.co.in • Website: www.kirloskarpumps.com

INTEGRA ESSENTIA LIMITED

Chairman & Managing Director

(Formerly known as Integra Garments & Textiles Limited) CIN: L74110DL2007PLC396238

REGD OFF: 902, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place, North West, New Delhi,-110034, India STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

				STAND	ALONE						LIDATED	S EXCEPT S	
Sr.		(Quarter Ende	d	Half Year Ended		Year Ended	(Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
No.	Particulars	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	7,475.67	5,639.91	5,940.55	13,115.58	11,537.01	24,550.15	7,475.67	5,639.91	5,940.55	13,115.58	11,537.01	24,550.15
2	Total Expenses	6,496.86	5,462.93	5,730.35	11,959.79	11,268.49	23,832.65	6,496.86	5,462.93	5,730.35	11,959.79	11,268.49	23,832.65
3	Profit Before Exceptional Items and Tax	978.81	176.98	210.20	1,155.79	268.52	717.50	978.81	176.98	210.20	1,155.79	268.52	717.50
4	Exceptional Items	-0.00	19	5.50	-0.00	5.50		1.34	6.93	11.18	8.27	11.18	6.20
5	Profit/ (Loss) Before Tax	978.82	176.98	204.70	1,155.80	263.02	717.50	980.16	183.91	215.88	1,164.07	274.20	723.70
6	Total Tax Expense	225.28	65.61		290.89		57.03	227.36	65.61	8	292.97	3+	57.03
7	Profit/(Loss) for the period	753.53	111.37	204.70	864.90	263.02	660.48	752.79	118.30	215.88	871.09	274.20	666.67
8	Total Comprehensive Income for the period	802.67	111.37	204.70	914.04	263.02	660.48	801.93	118.30	215.88	920.23	274.20	666.67
9	Paid up equity share capital (Face value)	4,570.33	4,570.33	3,856.82	4,570.33	3,856.82	4,570.33	4,570.33	4,570.33	3,856.82	4,570.33	3,856.82	4,570.33
10	Other Equity excluding Revaluation Reserves	6,596.14	3,075.72	-1,627.01	6,596.14	-1,627.01	2,964.35	6,608.53	3,082.65	-1,615.83	6,608.53	-1,615.83	2,970.55
11	Earnings per Equity Share (Basic & Diluted)	0.19	0.02	0.05	0.19	0.07	0.14	0.19	0.03	0.06	0.19	0.07	0.15

The Consolidated financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 (the Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

The results of the Company are also available for investors at www.integraessentia.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Integra Essentia Limited

Vishesh Gupta Managing Director DIN: 00255689

Date: November 06th, 2023

A	ARVIND FASHI	ONS LIMITED			·		
1	CIN - L52399GJ20						
*	Regd. Office: Naroda Roa	•					
SHIR	ONING POSSIBILITIES A MEMBER OF L						
	Website: www.arvindfashions.com Ema						
	EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS F	OR THE QUAR	TER AND HAL	F YEAR ENDED		•	
17/5				100	31.00.00	ores except p	
			Quarter Ended		Half Year	Ended	Year
Sr.	Particulars	20 00 2022	20.06.2022	20.00.2022	20.00.2022	20.00.2022	Ended
No.	Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2023	3311.0033.200223
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,271.48	968.08	1,201.85	2,239.56	2,124.32	4,473.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary	48.19	14.43	45.10	62.62	58.32	128.0
	items)						
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	48.19	14.43	45.10	62.62	58.32	128.0
	Extraordinary items)						
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary	37.03	(4.53)	28.08	32.50	36.25	87.92
	items) from continuing operations						
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary	37.03	(4.53)	28.08	32.50	36.25	86.9
	items) from continuing and Discontinuing operations				2.0		
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit for the	37.39	(5.64)	28.91	31.75	37.75	86.2
	period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]						
6	Paid up Equity Share Capital	53.15	53.13	53.10	53.15	53.10	53.13
7	Reserves as shown in the Audited Balance Sheet		3		- 3	3	856.52
8	Earnings Per Share (of Rs. 4/- each) (Continuing and Discontinuing Operations)		7		- 1		
	Basic : (Rs.)	1.63	(1.24)	1.37	0.39	1.34	2.7
- 1	Diluted : (Rs.)	1.63	(1.24)	1.37	0.39	1.33	2.7

1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results is available on the Stock Exchanges websites at www.nseindia.com and

www.bseindia.com and on the Company's website at www.arvindfashions.com. The above consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 which have been subjected to limited review by the Auditors of the Group, were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 7, 2023 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Statutory Auditors have expressed an unqualified audit opinion

Standalone Information: Particulars

						20	4
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2022	31.03.2023
8	Total Income	201.75	174.89	180.55	376.64	298.40	758.59
M	Profit/(Loss) before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	10.91	45.01	9.38	55.92	11.08	10.10
135	Profit/ (Loss) before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(24.24)	45.01	9.38	20.77	11.08	10.10
8	Profit/(Loss) after Tax	(24.75)	38.78	9.28	14.03	10.95	9.86
ij	Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax)	(0.15)	(0.10)	(0.19)	(0.25)	(0.24)	(0.44)
8	Total Comprehensive Income/(Loss) after tax	(24.90)	38.68	9.09	13.78	10.71	9.42

Date: November 7, 2023

Place: Bangalore

For Arvind Fashions Limited Shailesh Chaturvedi Managing Director & CEO

Half Year Ended Year Ended

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Transpek Transpek Industry Limited

Registered Office: 4th Floor, Lilleria 1038, Gotri - Sevasi Road, Vadodara - 390021. Tel: 0265 - 6700300 Email: secretarial@transpek.com Website: www.transpek.com

CIN: L23205GJ1965PLC001343 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023.

Ouarter Ended

			Standalor	ne (Rs. In Lakhs)					Consolidated	(Rs. In Lakhs)		
PARTICULARS	Quarter ended 30th Sept., 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30th June, 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30th Sept., 2022 (Unaudited)	Half Year ended 30th Sept., 2023 (Unaudited)	Half year ended 30th Sept., 2022 (Unaudited)	Year ended 31st March, 2023 (Audited)	Quarter ended 30th Sept., 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30th June, 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30th Sept., 2022 (Unaudited)	10000000 POP 100 - 24000000000000000000000000000000000	30th Sept., 2022	31st March, 2023
Revenue from Operations	12,093.56	16,216.33	21,617.49	28,309.89	42,766.98	82,689.75	12,093.56	16,216.33	21,617.49	28,309.89	42,766.98	82,689.75
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	556.02	2,125.48	2,668.27	2,681.50	4,882.12	11,280.12	555.94	2,125.42	2,668.23	2,681.36	4,882.04	11,279.81
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	556.02	2,125.48	2,668.27	2,681.50	4,882.12	11,280.12	555.94	2,125.42	2,668.23	2,681.36	4,882.04	11,279.81
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	299.44	1,585.05	1,998.54	1,884.49	3,638.56	8,348.02	299.36	1,584.99	1,998.50	1,884.35	3,638.48	8,347.71
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,583.79	1,853.67	3,485.77	4,437.46	4,910.84	11,490.82	2,583.71	1,853.61	3,485.73	4,437.32	4,910.76	11,490.51
Equity Share Capital	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56	558.56
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	200	-	61,007.38	51,525.97	58,105.95	-	-	-	61,006.32	51,526.30	58,105.95
Earnings Per Share (of Rs.10/- each)												

Basic & Diluted (Rs.)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results is available on the Company's website at www.transpek.com and the Stock Exchange's Website at www.bseindia.com

65.14

33.74

MANAGING DIRECTOR DIN: 00081171

financialexp.epap.in

Date: November 6, 2023 Place : Vadodara

5.36

28.38

35.78

149.46

New Delhi

5.36

28.38

35.78

For TRANSPEK INDUSTRY LIMITED BIMAL V. MEHTA

65.14

149.45

33.74

GDL LEASING AND FINANCE LIMITED Regd. Off.: B-3/91 ASHOK VIHAR, PHASE II, NEW DELHI, Delhi, India, 110052 CIN: 174899DI 1994PI C057107 Email: investor gdl.1995@yahoo.com PUBLIC NOTICE

(PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued by Reserve Bank of India on July 09, 2015. Notice is hereby given that the shareholders of GDL LEASING AND FINANCE LIMITED, a company incorporated under the companies Act, 1956/2013 and Registered with Reserve Bank of India vide Certificate Number B-14.01346 as a Non Deposit taking Non-Banking Finance Company, with its Registered office situated at B-3/91 ASHOK VIHAR, PHASE II, NEW DELHLIndia, 110052 is intended to transfer the ownership and control of the company through the sale of shares to 1. Mr. Prem Kumar Jain S/o Mr. Champa Lal Jain 2. Mr. Ashish Jain S/o Mr. Prem Kumar Jain 3.Mr. Mohit Jain S/o Mr. Prem Kumar jain. The new directors to be appointed are Mr. Prem Kumar Jain and Mr. Satyanaryana Murty Tantravahi and Mr. Ashish Jain, the resigning directors are 1. TANYA MAKHIJANI and 2. DEEPAK KUMAR GANGWANI and 3. SANGEETA GANGWANI 4. AJAY KUMAR KALRA and company Secretary 5 NITI TAHEEM., all by occupation, Business will take ownership and control of GDL LEASING AND FINANCE LIMITED. Therefore, for the transfer is to scale up, expand and diversify the business activity. The above Notice is being given pursuant to RBI Circular DNBR, (PD) CC, No.065/03.10.001/2015-16 dated July, 09,2015 and other relevant Regulations. The company has already obtained the prior approval for change of Management from RBI, Delhi vide letter No. PV(N.D) S378/NBFC-BL/05.07.037/2023-24 DATED 06/11/2023.

> For GDL LEASING AND FINANCE LIMITED DEEPAK KUMAR GANGWANI EXISTING DIRECTOR DIN: 00761959 NEW DELHI

Any clarification / Objection in this regard may be

addressed to Department of Non-Banking Supervision,

Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, Delhi 110001

within 30 days from the date of publication of this

notice stating therein the nature of interest and grounds

of objection. This public Notice is being issued jointly

by the Company and the above-mentioned Acquirers.

PATBACK BUSINESS LIMITED

CIN: L74999DL1984PLC018747

Regd Off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Dellhi-110085 | Ph No: 011-27860681 Email id: crazypricingdel@gmail.com | Website: www.patback.in

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results

For the Quarter and half year ended September 30, 2023 In compliance with the Para 5 of Notification No. DNBR. Half Year Quarter Quarter Ended Ended Ended **Particulars** 30/09/2023 30/09/2022 30/09/2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 373.65 32.21 375.83 Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 3.54 27.41 (1.54)Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3.54 27.41 (1.54)Net Profit / (Loss) for the period after tax (after (1.54)Exceptional and/or Extraordinary items) 3.54 21.32 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 3.54 21.32 24.80 24.80 24.80 Equity Share Capital

> The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the website of the Company i.e (www.patback.in) and website of the stock Exchange(s) (www.msei.in).

. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 07th Nov. 2023. 5. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS)

as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind -as rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors of Patback Business Limited

8.99

8.59

8.59

73.14

1.43

1.43

73.14

(0.62)

(0.62)

DIN: 00749265

Date: 07.11.2023 Pawan Kumar Mittal (Director) Place: New Delhi

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown

in the Audited Balance Sheet of previous year)

(for continuing and discontinued operations) -

Earnings Per Share (of Rs.10/- each)

1. Basic :

2. Diluted :

CIN: L74110DL2007PLC396238

इन्ट्रेगा एशेन्सिया लिमिटेड (पूर्व में इन्टेग्रा गार्मेन्ट्स एंड टेक्स्टाइल्स लिमिटेड)

पंजी. कार्या:: 902, 9वाँ तल, अगरवाल सायबर प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, नार्थ वेस्ट, नई दिल्ली-110034, भारत 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये अनेकक्षित वित्तीय परिणामी का विवरण

- 71			स्टैण्डएलॉन						समेकित					
क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष				
सं.		30 सित. 23	30 जून, 23	30 सित. 22	30 सित. 23	30 सित. 22	31 मार्च 22	30 सित. 23	30 जून, 23	30 सित. 22	30 सित. 23	30 सित. 22	31 मार्च, 2	
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	
1	कुल आय	7,475.67	5,639.91	5,940.55	13,115.58	11,537.01	24,550.15	7,475.67	5,639.91	5,940.55	13,115.58	11,537.01	24,550.15	
2	कुल व्यय	6,496.86	5,462.93	5,730.35	11,959.79	11,268.49	23,832.65	6,496.86	5,462.93	5,730.35	11,959.79	11,268.49	23,832.65	
3	विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व लाभ	978.81	176.98	210.20	1,155.79	268.52	717.50	978.81	176.98	210.20	1,155.79	268.52	717.50	
4	विशिष्ट मदों	-0.00	-	5.50	-0.00	5.50		1.34	6.93	11.18	8.27	11.18	6.20	
5	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	978.82	176.98	204.70	1,155.80	263.02	717.50	980.16	183.91	215.88	1,164.07	274.20	723.70	
6	कुल कर व्यय	225.28	65.61		290.89		57.03	227.36	65.61		292.97	-	57.03	
7	अवधि के लिये लाभ/(हानि)	753.53	111.37	204.70	864.90	263.02	660.48	752.79	118.30	215.88	871.09	274.20	666.67	
8	अवधि के लिये कुल व्यापक आय	802.67	111.37	204.70	914.04	263.02	660.48	801.93	118.30	215.88	920.23	274.20	666.67	
9	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य)	4,570.33	4,570.33	3,856.82	4,570.33	3,856.82	4,570.33	4,570.33	4,570.33	3,856.82	4,570.33	3,856.82	4,570,33	
10	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर अन्य इक्विटी	6,596.14	3,075.72	-1,627.01	6,596.14	-1,627.01	2,964.35	6,608.53	3,082.65	-1,615.83	6,608.53	-1,615.83	2,970.55	
11	आय प्रति इक्विटी शेयर (मूल एवं तरल)	0.19	0.02	0.05	0.19	0.07	0.14	0.19	0.03	0.06	0.19	0.07	0.15	

1 . कंपनी के समेकित वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुसार तथा सेबी (सूचीयन दायित्व

तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनसार तैयार किया गया है। 2. कंपनी के परिणाम निवेशकों के लिए www.integraessentia.com, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कृते इन्टेग्रा एशेन्सिया लिमिटेड

विशेष गुप्ता प्रबंध निदेशक DIN: 00255689

4.32

SRM ENERGY LIMITED

Regd. Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi 110057 CIN: L17100DL1985PLC303047 Tel No. 011-41403205 Website: www.srmenergy.in Email: info@srmenergy.in Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Results for the Quarter and Half Year ended 30/09/2023

(₹ in lac) Standalone Consolidated Quarter Half Year Half Year Quarter Half Year Half Year Quarter Quarter Quarter Year Quarter ending (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022 31/03/2023 30/09/2023 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2022 31/03/2023 0.27 1.91 1.87 2.18 0.73 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, (10.50)(9.87)(7.45)(20.37)(18.84)(35.77)(38.15)(101.03)(121.01)(227.42)Exceptional and/or Extraordinary Items) (17.86)(56.02)Net Profit / (Loss) for the period before Tax (10.50)(9.87)(7.45)(20.37)(18.84)(35.77)(38.15)(17.86)(101.03)(56.02)(121.01)

(after Exceptional and/or Extraordinary Items) (227.42)Net Profit / (Loss) for the period after Tax (20.37)(17.86)(9.87)(7.45)(18.84)(38.15)(101.03)(56.02)(121.01)(227.42)(after Exceptional and/or Extraordinary Items) (10.50)(35.77)Total comprehensive income for the period [Comprehensive Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) (10.50)(9.87)(7.45)(20.37)(18.84)(35.77)(38.15)(17.86)(101.03)(56.02)(121.01)(227.42)Paid up Equity Share Capital (Face value of 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 906.00 Rs. 10/- each) (5,434,43)Other equity (1,238.77)Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-(1.34) (1.34) (0.42)Basic (0.22)(1.12)(0.08)(0.22)(1.12)(0.62)(2.51)2. Diluted (0.12)(0.21)(0.39)(0.42)(0.20)

No.

Other Income

a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on the stock exchange website www.bseindia.com and on the company website

b) The above Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2023 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 07, 2023.

For and On behalf of Board Sharad Rastogi

Whole Time Director

Din: 09828931

Place: New Delhi Date: Nov 07, 2023

DIN: 00293668

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: १५वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - ११००१९ (भारत) दूरभाष नं.: 011-66155129 | फैक्स नंबर: 0120-4588513 ईमेल: Investor@racigeartech.com | वेबसाइट: www.racigeartech.com

CIN: L34300DL1983PLC016136

विनांक: 08.11.2023

स्थान : दिल्ली

GEARS

30 सितंबर, 2023	को समाप्त ति	माही के लिए सं	टेंडअलोन और	कंसोलिडेटेड अव	नअंकेक्षित विर्त्त	य परिणामों व	ा उद्घरण	
Page 1907	WHI	1			NF C		(ईपीएस को छो	ड़कर र लाख में)
		कंसोर्	लिडेटेड			स्टेंड3	uलोन	
विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	वर्ष से आज तक आकड़ें	समाप्त पूर्व वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	वर्ष से आज तक आकड़ें	समाप्त पूर्व वर्ष
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2023	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	31.03.2023
0 2	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	103.14	90.21	192.76	367.34	103.14	90.21	192.76	367.34
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाघारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व)	13.67	13.16	25.32	51.42	13.62	13.15	25.27	51.33
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	13.67	13.16	25.32	51.42	13.62	13.15	25.27	51.33
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हामी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	10.21	9.87	18.97	37.43	10.20	9.86	18.98	37.45
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	10.15	9.73	18.83	37.15	10.13	9.74	18.84	37.16
इक्विटी शेयर पूंजी	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16	1078.16
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दशर्डि गई है	-	*	-	15669.72		-	-	15670.44
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)		9.15	17.59	34.72	9.46	9.15	17.60	34.74

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, २०१५ के विनियमन ३३ तथा सेबी सर्क्युलर CIR/CFD/FAC/62/२०१६ तिथि ५ जुलाई, २०१६ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई ३० सितंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अनअंकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं कसोलिडेटेड तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारुप कंपनी को वेबसाईट अर्थात www.racigeartech.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की

नवम्बर, २०२३ को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा ३० सितंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की कंपनी

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड ग्रशरण सिंह अध्यक्ष व प्रबंध निदेषक

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1968PLC004962

Regd. office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020. Tel. No.: 011 - 35008342 | Email: Info@salora.com | Visit us at: www.salora.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

		Quarter Ended		Six Month	s Ended	Year Ended
Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited	d Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	4,318.58	3,580.06	4,694.38	7,898.64	5,748.90	11,628.74
Profit/(loss) before tax (including exceptional item)	(56.80)	(128.07)	(85.90)	(184.87)	(184.21)	(1,184.47)
Net profit / (loss) for the period after tax	(44.01)	(95.97)	(61.19)	(139.98)	(135.10)	(896.94)
Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(45.90)	(97.86)	(61.92)	(143.77)	(136.57)	(904.51)
Paid-up Equity Share Capital	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73	880.73
Reserves as shown in the Balance Sheet	(4)	=	3	8		4,967.32
Earning per Share (of Rs. 10/- each)			Į.			
Basic & diluted earning per share (before exceptional items)	(0.50)	(1.09)	(0.69)	(1.59)	(1.53)	(3.58)
Basic & diluted earning per share (after exceptional items)	(0.50)	(1.09)	(0.69)	(1.59)	(1.53)	(10.18)

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 07

November 2023 & these results have been reviewed by the Statutory Auditors of the company.

2. The SLP on merits with the Honourable Supreme Court and writ petition in High Court of Delhi are still pending for disposal and contingent liability against this matter shall stand as it is. However, recently two of similar nature of cases has been decided in the favour of the appellant by the CESTAT and Honourable Supreme Court.

- Deferred tax assets Rs.2154.50 lacs as at 30th September, 2023 is expected to be realized, as the company strongly believes that it has reasonably certainty of realization. The company has enhanced its product portfolio and the new business strategy of deeper penetration, greater operational efficiency, thereby the company expects to start absorbing the losses gradually. Moreover there are no brought forward losses under the Income Tax Act.
- which are expiring during the current financial year as well as in the next financial year. In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e " Consumer Electronic Division".

5. The figures for the corresponding previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable

(GOPAL SITARAM JIWARAJKA) Place: New Delhi.

Date: 07th November, 2023 **CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR** These unaudited financial results can be assessed on the company's website at www.salora.com and also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com

दिनांक : 0७ नवम्बर, २०२३ www.readwhere.com

विक्री सुचना

ई-नीलामी के माध्यम से हाइपोथेकेशन समझौते के तहत वाहनों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

शाखा/खाता

ईएमडी के लिए नम्बर

सार्वजनिक सूचना सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के मामले में एलएलपी (एलएलपी का

निगमन) नियम, 2009 के नियम 17 के साथ पठित एब्सोल्यूट एसेट्स एलएलपी मामले में इसका पंजीकृत् कार्यालय फ्लैट नंबर 1, प्रॉप नंबर 111/9 केएच नंबर 1238 (पुराना नंबर 1674) किशन गढ़् वसंत कुंज, दिल्ली, भारत, 110070 पर है। आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि एब्सोल्यूट एसेटस एलएलपी देवता भागीदारी अधिनियम

2008 की धारा 13 के तहत रजिस्टार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में एलएलपी के पंजीकत कार्यालय में बदलाव की पृष्टि की मांग की जाती है मंगलवार, 07 नवंबर, 2023 को एलएलपी को अपने पंजीकत कार्यालय को 'दिल्ली राज्य' से 'हरियाणा' में बदलने में सक्षम बनाना। कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो

की संभावना है, वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या डिलीवरी या भेजने का कारण बन सकता है। ए-609,6वीं मंजिल, अर्बन स्कायर गोल्फ कोर्स एक्सटेशन में कंपनी रजिस्टार के कार्यालय में उनकी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे द्वारा समर्थित उनकी आपत्तियां पंजीकृत डाक द्वारा। रोड 122098 गुड्गांव इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर आवेदक एलएलपी को ऊपर बताए गए पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय

में एक प्रति के साथ भेजें।

आवेदक के लिए और उसकी ओर से एब्सोल्यूट एसेट्स एलएलपी अभिषेक कुंड नामित भागीदार डीपीआईएन:- 08593412 दिनांक: 07.11.2023 स्थानः नई दिल्ली

स्थानः दिल्ली

Particulars

तिथि: 6 नव. 2023

केनरा बैंक. हरिद्वार एसएमई मेसर्स महादेव एक्सकैवेटर ₹. 14,24,563.93 ₹. 84.000 / खाते का नाम - केनरा बैंक महिंद्रा अर्थ मास्टर एसएक्स डीआई टेक (रूपये चोदह लाख चौबीस हजार (रुपये चौरासी इंटरप्राइजेज 8,40,000 /-खाता संख्या - 209272434 पांच सौ तिरसठ और तिरानवे पैसा (हरिद्वार एसएमई (रुपए आठ हजार मात्र) आईएफएससी-CNRB0005994 MDZAM2EFCJ6E49600 मात्र) 15.08.2021 को+ ब्याज 17. लाख चालीस शाखा संपर्क फोन 9456591195 07.2021 से+ व्यय और लागत -रजि. नंबर: UK08CB0204 हजार मात्र) मेल: cb5994@canarabank-com वसूली 15.08.2021 इंजन संख्या—NJA5WAE0142 मारुति स्विफ्ट वीडीआई (डीजल) ₹. 4,77,161.46 केनरा बैंक, हरिद्वार, ज्वालापुर । श्री विनय शील ₺. 40,000 / -₹. खाते का नाम – केनरा बैंक चेसिस नंबर (रूपये चार लाख सुतहत्तर हजार पाहवा पुत्र श्री (चालीस हजार 4,00,000 / MBHCZC03SKJ489484 एक सौ इकसठ और छियालीस खाता संख्या - 209272434 रविशंकर (केवल चार रूपये मात्र) पैसे मात्र) 01.05.2023 को + ब्याज आईएफएससी-CNRB0005097 इंजन संख्या लाख रूपये) 13.04.2023 + व्यय और लागत् शाखा संपर्क फोन 9456591083 D13A0807382 ज्वालापुर | 5097 वसूली दिनांक 01.05.2023 से मेल: cb5097@canarabank-com पंजीकरण संख्या UK08AV7173 (यदि कोई हो) ई-नीलामी के नियम व शतौँ की विस्तृत जानकारी हेत् कृपया बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com/www.indianbankseauction.com

में दिये लिंक "E-Auction" पर जाएं अथवा सम्पबन्धित शाखाओं से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान सम्पर्क कर सकते है।

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आर्कोटेक लिमिटेड

CIN: L34300HR1981PLC012151 पंजी. कार्यालय : 181, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, जिला-रेवाड़ी, हरियाणा 123501 वेबसाइट : www.arcotech.in, ईमेलः contact@arcotech.in दूरमाषः 0128-4264160 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.09.2023 अनंकेक्षित	तिमाही समाप्त 30.09.2022 अनंकेक्षित	वर्ष समाप्त 31.03.2023 अंकेक्षित
1.	परिचालनों के कुल आय (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (विशिष्ट और या असाधारण मदों तथा कर से पूर्व)	(842.89)	(846.81)	(12014.99)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	(842.89)	(846.81)	(12014.99)
	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	(842.89)	(846.81)	(8215.73)
5.	अवधि हेतु कुल य्यापक आय (अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को मिलाकर)	(842.89)	(846.81)	(8215.37)
6.	इविवटी शेयर पूंजी	2100.00	2100.00	2100.00
32	प्रति शेयर आये (रु.2/— प्रत्येक) क) मूल (रु.) : ख) तरल (रु.):	(0.80) (0.80)	(0.81) (0.81)	(7.82) (7.82)

1- उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, तथा 07 नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

2- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का एक उद्धारण है। तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबासाइट www.arcotech.in पर भी उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से आर्कोटेक लिमिटेड के लिए हस्ता / -आरएन पटनायक स्थानः नई दिल्ली पूर्णकालिक निदेशक तिथिः 07.11.2023 Din: 01189370

> IndoSolar Limited Regd Office: C-12, Friends Colony (East), New Delhi - 110065. India

CIN: L18101DL2005PLC134879 E-mail: secretarial@waaree.com | Website: www.indosolar.co.in | Telefax No :+91 -120 - 4762500

Sr.	Particulars		Quarter Ende	ed	Half yea	r ended	Year Ended	
No.	Particulars	30-Sep-23	30-Jun-23		the second secon	30-Sep-22	31-Mar-23	
65		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total income from operations (net)	3.83	5.79	81.11	9.62	81.40	113.09	
2	Net Profit / (Loss) for the period from ordinary activities (Before tax, Exceptional and /or	NECTOR	200222404	3337500	25,36760,557	27/20/20/20	170201144	
3	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	(132.43)	(621.62)	
3	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	1,09,024.68	1,08,140.68	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	8 10	(R) (C)	8 8	80 0			
900	(after Exceptional and /or Extraordinary items)	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(560.01)	1,09,024.68	1,08,117.04	
5	Total Comprehensive Income for the period	200 200	05) 000	200 0	SSM V	MINES.	William	
	(comprising profit or (loss) for the period							
	(after tax) and other Comprehensive income (after tax)	(320.77)	(239.25)	(64.49)	(660.04)	1,09,024.68	1 00 117 04	
6	Equity Share Capital	(320.77)	(235.25)	(04.49)	(500.01)	1,09,024.00	1,06,117.04	
	(Face Value RS. 10/- per share)	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as	15000000	810,000	1200000	10000000		3/15/30/35	
	shown in the Audited Balance Sheet of	areessaring	NO SA POR SERVICE	NOVEMBER OF	0000000000		H116555767400	
	previous year.	(4,052.76)	(1,49,216.15)	(1,49,216.15)	(4,052.76)	(1,49,216.15)	(4,052.78)	
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each)							
	(not annualised for the quarter and year ended)	10070000	10.000000	133/21/8/20	71008000	100000000000000000000000000000000000000	957225123	
	(a) Basio(in Rs.)	(0.77)	(0.58)	(0.16)	(1.35)	262.06	178.36	

(0.77)(1.35) 262.06 178.36 (b) Diluted(in Rs.) (0.16) Notes: The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter ended and half year ended September 30, 2023 filed with the stock exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited Financial Result guarter ended and half year ended September 30,2023 is available on www.bseindia.com and www.nseindia.com and the same is

also available on the website of the Company viz www.indosolar.co.in The above unaudited financial results of the company for the quarter ended and half year ended 30th September 2023 have been reviewed by the audit committee and taken on record approved by the Board of Directors as

its meeting held on 6th November 2023. The above result are in compliant with Indian Accounting Standard (Ind AS) notified by the ministry of Corporate

For IndoSolar Limited Hitesh C. Doshi

Place: Mumbai

Date: November 06, 2023

मूल तथा तरल

वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

2 30 सितंबर, २०२३ को समाप्त तिमाही के विस्तृत अनअंकेक्षित स्टेंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की "सीमित समीक्षा" कमिटी द्वारा की गई तथा ०७ के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।

स्थान : नोएडा

केनरा बैंक

र्डएमडी जमा करने की अंतिम तिथि- 18.11.2023 और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि- 18.11.2023 - शाम 5.00 बजे तक है ।

वाहन विवरण

Canara Bank

(A Government of India Undertaking)

उधारकर्ता / शाखा

5994)

हरिद्वार

/डीपी कोड




नीलामी सुचना इस आशय से दी जाती है कि सुरक्षित ऋणदाता केनरा बँक ने निम्नलिखित वाहन का कब्जा ले लिया है और इसे 20.11.2023 को दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.30

बजे तक ऑनलाइन ई-नीलामी आयोजित करके बेचा जाएगा। (बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)। केनरा बैंक, संबंधित शाखाओं में

वाहन का विवरण

देनदारियां



Email: roddn2rec@canarabank.com

5

(रूपये में)

आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि

(रूपये में)

ई फ्लोर, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुमाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली—11003:

ईमेलः info@progressivefinlease.in वेबसाइटः www.progressivefinlease.in 29वीं एजीएम, ई-वोटिंग और बक क्लोजर की सचना

प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड

सीआईएनः L65910DL1995PLC064310

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैंठक (एजीएम) गुरुवार, 30 नवंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) 367, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 पर, एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। । कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ 29वीं एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजी है जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गर है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022–2023, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 29वीं एजीएम का नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजें की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। www.msei.in इसकी एक प्रति नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

रिमोट ई-वोटिंगः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रासंगिक प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों अनुपालन में, कंपनी एजीएम से पहले और साथ ही एजीएम के दौरान किए जाने वाले

उपलब्ध है।

व्यवसाय के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। एनएसडीएल माध्यम से एजीएम, विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। रिमोट ई–वोटिंग 27 नवंबर, 2023 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और 29 नवंबर, 2023 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिव रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का मतदान अधिकार 23 नवंबर 2023 ('कट—ऑफ तिथि') को कंपनी की भूगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उन हिस्से के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, व evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। और एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर 1800—222—990 पर संपर्क करें।

^{हे} अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 24 नवंबर, 2023 से 30 नवंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। 29वीं एजीएम का उद्देश्य. ई—मेल पते का पंजीकरणः जिन सदस्यों (भौतिक और डीमैट धारक) ने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे पदवि / चतवहतमेपअमपिदसमेंमण्पद पर कंपनी एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने औ रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ईमेल पते औ पैन की स्कैन की गई कॉपी के साथ भेजने का अनुरोध किया जाता है। बोर्ड की आज्ञानुसार प्रोग्रेसिव फिनलीज लिमिटेड के लिए

आगे सूचना दी गई है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियम

हस्ता /-राजीव जैन दिनांकः 07.11.2023 प्रबंध निदेशक स्थान : दिल्ली डीआईएनः 03438127 प्रपत्र सं. आइएनसी-26

के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के

उप-नियम (5) के खंड (ए), के मामले में

जग्गा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड

किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन

जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है: 4617, ग्राउंड फ्लोर, आर्य पुरा सब्जी मंडी, नई दिल्ली - 110007 याचिकाकर्ता एतदद्वारा आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजिकृत कार्यालय को "एनसीटी दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" स्थानांतरित करने के लिए 2 नवंबर, 2023 को आयोजित

साधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी

के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पृष्टि करने की कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या एक शपथ पत्र जिसमें अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सुबना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह दिनों) के भीतर फंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और

इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नातिखित पंजीकृत कार्यालय के पते **4617, ग्राउंड फ्लोर, आर्य** पुरा सब्जी मंडी नई दिल्ली 110007 में भेजें। आवेदक के लिए और उनकी ओर से

इस्ताक्षर / संतोष जग्ग निदेशक

1 RAUNAQ